



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 523]  
No. 523]

नई दिल्ली, बुधस्वतिवार, नवम्बर 29, 2007/अग्रहायण 8, 1929  
NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 29, 2007/AGRAHAYANA 8, 1929

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 नवम्बर, 2007

सं. 42/2007-सेवाकर

**सा.का.नि. 739(अ).—**वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32) की धारा 93 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट होने पर कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 41/2007-सेवाकर तारीख 6 अक्टूबर, 2007 [सा०का०नि० 645 (अ) जो भारत के राजपत्र, आसाधारण में तारीख 6 अक्टूबर, 2007 में प्रकाशित हुई थी, में निम्नलिखित संशोधन करते हैं; अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, अनुसूची में, क्रम सं० 7 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)	(4)
"8.	धारा 65 (105) (यययध)	उक्त माल के निर्यातक द्वारा उपयोग किए जाने वाले कंटेनर का विशेषीकृत सफाई सेवाएं जैसे विसंक्रमित करना, परिसमाप्त करना, निर्जीवाणुकरण करना या सुवासित करना ।	(i) निर्यातक उक्त माल के द्वारा उपयोग किए जाने वाले कंटेनर का विशेषीकृत सफाई अपेक्षित होने के आशय वाले क्रेता के साथ किए गए लिखित करार की प्रति प्रस्तुत करेगा; और (ii) उक्त विशेषीकृत सफाई सेवाएं प्रदान करने वाला सेवाप्रदाता योग्य कानून के अंतर्गत उक्त सेवा प्रदान करने के लिए सक्षम है ।

9.	धारा 65 (105) (ययक)	उक्त माल के भंडारन हेतु प्रदान की गई सेवाएं	(i) उक्त माल का भंडारन उस भंडार में किया जायेगा जो योग्य अधिकारी द्वारा अधिकृत है ; और (ii) उक्त भंडार केवल निर्यात माल के भंडारन के लिए उपयोग किया जाता है ।”
----	------------------------	---	---

2. यह अधिसूचना भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होगी ।

[फा. सं. 341/15/2007-टी आर यू]

जी. जी. पई, अवर सचिव

**टिप्पण :** मूल अधिसूचना सं० 41/2007-सेवाकर, तारीख 6 अक्टूबर, 2007 [सा० का० नि० 645 (अ), तारीख 6 अक्टूबर, 2007] द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण द्वारा प्रकाशित की गई थी, ।

### MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 29th November, 2007

### No. 42/2007-Service Tax

**G.S.R. 739(E).**—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 93 of the Finance Act, 1994 (32 of 1994), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No.41/2007-Service Tax, dated the 6th October, 2007 which was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R. 645(E) dated the 6th October, 2007, namely:-

In the said notification, in the Schedule, after Sr.No.7 and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely:-

(1)	(2)	(3)	(4)
“8.	Section 65(105)(zzzd)	Specialized cleaning services namely disinfecting, exterminating, sterilizing or fumigating of containers used for export of said goods provided to an exporter.	(i) the exporter furnishes a copy of the written agreement entered into with the buyer of the said goods requiring such specialized cleaning of containers used for export of said goods; and (ii) the service provider is accredited by the competent statutory authority to provide such specialized cleaning services.
9.	Section 65(105)(zza)	Services provided for storage and warehousing of said goods.	(i) the said goods are stored in a storage or warehouse which is approved by the competent authority; and (ii) the storage or warehouse is exclusively used for the purpose of storage or warehousing of export goods.”

2. This notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. 341/15/2007-TRU]

G. G. PAI, Under Secy.

**Note :** The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, section 3, sub-section (i), vide number G.S.R. 645(E) dated the 6<sup>th</sup> October, 2007.

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 नवम्बर, 2007

सं. 43/2007-सेवाकर

**सा.का.नि. 740(अ).—**वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32) की धारा 93 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट होने पर कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, उक्त वित्त अधिनियम की धारा 65 के खंड (105) के उपखंड (ययत) में विनिर्दिष्ट (इसके पश्चात् इसे उक्त सेवा के रूप में उल्लिखित) जो व्यापार प्रदर्शन के संबंध में व्यापार प्रदर्शन व्यवस्था करने वाला विनिर्माता द्वारा निर्मित केन्द्रीय उत्पाद टैरिफ अधिनियम 1985 के अध्याय 57, 61, 62 और 63 के अंतर्गत आने वाले माल (इसके पश्चात् इसे उक्त विनिर्माता के रूप में उल्लिखित) को प्रदान करता है, निम्नलिखित शर्तों के अधीन उक्त वित्त अधिनियम की धारा 66 के अंतर्गत उनपर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण सेवा कर से मुक्त करती है, अर्थात्:-

(क) इस अधिसूचना के अंतर्गत छूट का दावा करने से पहले, उक्त विनिर्माता ने केन्द्रीय उत्पाद टैरिफ अधिनियम 1985 के अध्याय 57, 61, 62 और 63 के अंतर्गत आने वाले माल (इसके पश्चात् इसे उक्त माल के रूप में उल्लिखित) का निर्यात किया है और उक्त माल के निर्यातक के रूप में निम्नलिखित संस्थाओं में से किसी एक संस्था के साथ रजिस्टर्ड है, अर्थात्:-

- (i) अपरेल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल;
- (ii) कारपेट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल;
- (iii) दी कॉटन टेक्सटाइल्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल;
- (iv) हैंडलूम एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल;
- (v) दी इंडियन सिल्क एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल;
- (vi) पॉवरलूम डेवलपमेंट एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल;
- (vii) सिंथेटिक एंड रेयॉन टेक्सटाइल्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल;
- (viii) वूल एंड वूलन्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल;
- (ix) वूल इंडस्ट्री एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल;
- (x) जूट मेन्यूफैक्चर्स डेवलपमेंट काउंसिल;

(ख) उक्त माल के उक्त विनिर्माता द्वारा उक्त सेवा के लिए छूट का दावा किया जाएगा;

(ग) उक्त विनिर्माता द्वारा दावा की गई छूट उक्त सेवा पर भुगतान किए गए सेवा कर के प्रतिदाय द्वारा प्रदान की जाएगी;

(घ) छूट का दावा करने वाले उक्त विनिर्माता ने उक्त सेवा पर सेवा कर का वास्तव में भुगतान किया है;

(ङ) उक्त सेवा पर भुगतान किए गए सेवाकर का क्रेडिट केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय नियम, 2004 के अंतर्गत नहीं लिया है।

2. इस अधिसूचना में अंतर्विष्ट छूट को निम्न प्रकार कार्यान्वित किया जाएगा, अर्थात्:-

(क) उक्त वित्त अधिनियम की धारा 68 के अंतर्गत सेवा कर का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति उक्त विनिर्माता को प्रदान की गई उक्त सेवा पर लागू सेवा कर का भुगतान करेगा और ऐसा व्यक्ति उक्त सेवा के लिए छूट का दावा करने का पात्र नहीं होगा;

(ख) उक्त विनिर्माता उत्पादन करने वाला कारखाना अथवा भंडारण पर क्षेत्राधिकार वाले केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के सहायक आयुक्त अथवा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के उपायुक्त के पास, जैसा मामला हो, प्रतिदाय के लिए दावा प्रस्तुत करेगा;

(ग) प्रतिदाय के लिए दावा तिमाही आधार पर उस संगत तिमाही की समाप्ति के साठ दिन के भीतर प्रस्तुत किया जायेगा जिसके दौरान उक्त सेवा का मूल्य तथा उस पर सेवाकर का भुगतान किया गया है;

(घ) प्रतिदाय दावा के साथ उक्त सेवा पर संदय सेवाकर का भुगतान जिनके लिए संदत्त सेवाकर के प्रतिदायी को दावा किया गया है के साक्ष्य वाले दस्तावेज प्रस्तुत किए जाएंगे;

(ङ) सहायक आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अथवा उपायुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क यथास्थिति स्वयं को इस बात से संतुष्ट कर लेने पर कि उक्त सेवा का वास्तव में उपयोग उक्त विनिर्माता के उक्त माल के व्यापार प्रदर्शन के लिए किया गया है, उक्त सेवा पर भुगतान किए गए सेवा कर का प्रतिदाय प्रदान करेंगे।

3. इस अधिसूचना की छूट 31 मार्च, 2009 तक प्रभावी होगी।

4. यह अधिसूचना भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होगी।

[फा. सं. 341/15/2007-टी आर यू]

जी. जी. पई, अवर सचिव

### NOTIFICATION

New Delhi, the 29th November, 2007

#### No. 43/2007-Service Tax

**G.S.R. 740(E).**—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 93 of the Finance Act, 1994 (32 of 1994), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts the taxable service, specified in sub-clause (zzo) of clause (105) of section 65 of the said Finance Act (hereinafter referred to as the said service), provided in relation to business exhibition of goods by the organiser of business exhibition to a manufacturer of goods falling under Chapters 57, 61, 62 and 63 of the Central Excise Tariff Act, 1985 (hereinafter referred to as the said manufacturer), from the whole of the service tax leviable thereon under section 66 of the said Finance Act, subject to the following conditions, namely:-

(a) prior to availment of exemption under this notification, the said manufacturer has exported goods falling under Chapters 57, 61, 62 and 63 of the Central Excise Tariff Act, 1985 (hereinafter referred to as the said goods) and is registered as exporter of said goods with any of the following organisations, namely:

- (i) Apparel Export Promotion Council;
- (ii) Carpet Export Promotion Council;
- (iii) The Cotton Textiles Export Promotion Council;
- (iv) Handloom Export Promotion Council;
- (v) The Indian Silk Export Promotion Council;
- (vi) Powerloom Development & Export Promotion Council;
- (vii) Synthetic & Rayon Textiles Export Promotion Council;
- (viii) Wool & Woollens Export Promotion Council;
- (ix) Wool Industry Export Promotion Council;
- (x) Jute Manufacturers Development Council;

(b) the exemption shall be claimed by the said manufacturer for the said service received;

(c) the exemption claimed by the said manufacturer shall be provided by way of refund of service tax paid on the said service;

(d) the said manufacturer claiming the exemption has actually paid the service tax on the said service;

(e) no CENVAT credit of service tax paid on the said service has been taken under the CENVAT Credit Rules, 2004.

2. The exemption contained in this notification shall be given effect to in the following manner, namely:-

(a) the person liable to pay service tax under section 68 of the said Finance Act shall pay service tax as applicable on the said service provided to the said manufacturer and such person shall not be eligible to claim exemption for the said service;

(b) the said manufacturer shall claim the exemption by filing a claim for refund of service tax paid on the said service to the Assistant Commissioner of Central Excise or the Deputy Commissioner of Central Excise, as the case may be, having jurisdiction over the factory of manufacture or warehouse;

(c) the claim for refund shall be filed on a quarterly basis, within sixty days from the end of the relevant quarter during which payment of the value of the said service and the service tax thereon has been made;

(d) the refund claim shall be accompanied by documents evidencing payment of service tax on the said service for which claim for refund of service tax paid is filed;

(e) the Assistant Commissioner of Central Excise or the Deputy Commissioner of Central Excise, as the case may be, shall, after satisfying himself that the said service has been actually used by the said manufacturer in relation to business exhibition of the said goods manufactured by him, refund the service tax paid on the said service.

3. The exemption contained in this notification shall be valid upto 31st March, 2009.

4. This notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. 341/15/2007-TRU]

G. G. PAI, Under Secy.

#### अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 नवम्बर, 2007

सं. 115/2007-सीमाशुल्क

**सा.का.नि. 741(अ).**—केन्द्रीय सरकार सीमाशुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 21/2002-सीमाशुल्क, तारीख 1 मार्च, 2002, सा०का०नि० 118 (अ), तारीख 1 मार्च, 2002 भारत के राजपत्र, असाधारण द्वारा प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करती है अर्थात:-

उक्त अधिसूचना में,  
सारणी में,-

- (i) क्रम सं० 419 के सामने, स्तंभ (4) की प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि “शून्य” प्रतिस्थापित की जायेगी;
- (ii) क्रम सं० 534 और संबंधित प्रविष्टियों, के स्थान पर निम्नलिखित क्रम सं० और प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जायेगी; अर्थात:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"534	5401, 5402, 5403, 5404, 5405 00 00 या 5406	सभी माल, नॉयलान के सिवाय	5%	-	-";

(iii) क्रम सं० 535 क और संबंधित प्रविष्टियों, के स्थान पर निम्नलिखित क्रम सं० और प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जायेगी; अर्थात:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"535 क	5501 से 5510	सभी माल, नॉयलान के सिवाय	5%	-	-";

(iv) क्रम सं० 553 और संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम सं० और प्रविष्टियां अंतः स्थापित की जायेगी; अर्थात:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"553 क	2905 31 00	मोनो इथीलिन ग्लाइकोल (एमईजी)	5%	-	-
553 ख	2917 36 00	प्योर टेरेपेथेलिक एसिड (पीटीए)	5%	-	-
553 ग	2917 37 00	डिमेथिल टेरेपेथलेट (डीएमटी)	5%	-	-";

(v) क्रम सं० 559 और संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम सं० और प्रविष्टियां अंतः स्थापित की जायेगी; अर्थात:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"559 क	3907	पॉलिस्टर चिप्स	5%	-	-";

[फा. सं. 354/168/2007-टी आर यू]

जी. जी. पई, अवर सचिव

**टिप्पण** : मूल अधिसूचना सं० 21/2002-सीमाशुल्क, तारीख 1 मार्च, 2002, सा० का० नि० 118 (अ), तारीख 1 मार्च, 2002 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण द्वारा प्रकाशित की गई थी, और उसमें अंतिम संशोधन अधिसूचना सं० 93/2007-सीमाशुल्क, तारीख 8 अगस्त, 2007, सा० का० नि० 539 (अ) तारीख 8 अगस्त, 2007 द्वारा किया गया था।

### NOTIFICATION

New Delhi, the 29th November, 2007

#### No. 115/2007-Customs

**G.S.R. 741(E).**—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 21/2002-Customs, dated the 1<sup>st</sup> March, 2002 which was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R. 118(E), dated the 1<sup>st</sup> March, 2002, namely:-

In the said notification, -

in the Table, -

- against S.No.419, for the entry in column (4), the entry "Nil" shall be substituted;
- for S.No. 534, and the entries relating thereto, the following S.No. and entries shall be substituted, namely:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"534	5401, 5402, 5403, 5404, 5405 00 00 or 5406	All goods, other than those of nylon	5%	-	-";

- (iii) for S.No. 535A, and the entries relating thereto, the following S.No. and entries shall be substituted, namely:

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"535A	5501 to 5510	All goods, other than those of nylon	5%	-	-";

- (iv) after S.No.553 and the entries relating thereto, the following S.Nos and entries shall be inserted, namely:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"553 A	2905 31 00	Mono ethylene glycol (MEG)	5%	-	-
553B	2917 36 00	Pure terephthalic acid (PTA)	5%	-	-
553C	2917 37 00	Dimethyl terephthalate (DMT)	5%	-	-";

- (v) after S.No. 559 and the entries relating thereto, the following S.No. and entries shall be inserted, namely:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"559A	3907	Polyester chips	5%	-	-";

[F.No.354/168/2007-TRU]

G. G. PAI, Under Secy.

**Note :** The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R. 118 (E), dated the 1<sup>st</sup> March 2002 and was last amended vide notification No. 93/2007-Customs, dated the 8<sup>th</sup> August, 2007 which was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R.539(E), dated the 8<sup>th</sup> August, 2007.